NDA SECURITIES LIMITED

Member: National Stock Exchange of India Ltd.

: Bombay Stock Exchange Ltd. : National Securities Depository Ltd.

Registered & Corporate Office: E-157, 2nd Floor, Kalkaji, New Delhi-110019

Phone: 011-46204000 (100 lines)

Email: info@ndaindia.com, website: www.ndaindia.com

CIN: L74899DL1992PLC050366

Dated: 15.02.2024

To.

The Manager (Listing) **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400 001

<u>Sub: Submission of Newspapers Advertisement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2023.</u>

Ref: NDA Securities Ltd. Code No. 511535

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Un-Audited Financial Results (Standalone and consolidated) of the Company for the quarter ended on 31st December, 2023, as published in "Business Standard" (English Newspaper) and "Veer Arjun" (Hindi Newspaper) on 15th February, 2024.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully
For NDA Securities Limited

SANJAY AGARWAL Digitally signed by SANJAY AGARWAL Date: 2024.02.15 16:18:37

Sanjay Agarwal

Managing Director

DIN: 00010639

Encl.: Newspaper publications

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019

Phone: 011-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

Statement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended December 31, 2023

| | | | Standalone | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Particulars | Quarter Ended Nine Mon | | ths Ended Year Ended | | Quarter Ended | | Nine Months Ended | | Year Ended | |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 |
| | Unaudited Audited | | | | | Unaudited | | | | Audited |
| Total Income | 171.41 | 148.69 | 456.56 | 457.25 | 573.23 | 171.64 | 148.89 | 457.21 | 457.84 | 574.01 |
| Net Profit Before Tax | 33.92 | 13.93 | 61.23 | 28.61 | 25.35 | 33.70 | 13.24 | 59.29 | 26.45 | 22.36 |
| Net Profit After Tax | 25.57 | 10.59 | 45.32 | 18.42 | 82.03 | 25.37 | 9.91 | 43.52 | 16.30 | 78.99 |
| Comprehensive income for the period [comprising profit for the period(after tax) and other comprehensive income(after tax)] | -0.73 | -1.51 | -0.44 | -10.96 | -9.58 | -0.73 | -1.51 | -0.44 | -10.96 | -9.58 |
| Total Comprehensive income | 24.84 | 9.08 | 44.88 | 7.46 | 72.45 | 24.64 | 8.40 | 43.08 | 5.34 | 69.41 |
| Paid up Equity Share Capital (FV 10/-) | 594.84 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 509.22 |
| Other Equity | | | | | 391.76 | | | - | - | 359.30 |
| Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted) | 0.43 | 0.21 | 0.76 | 0.36 | 1.61 | 0.43 | 0.19 | 0.73 | 0.32 | 1.55 |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website (www.bseindia.com) and Company' Website (www.ndaindia.com)

For and on behalf of the Board of Director for NDA Securities Limited

Place: New Delhi

Sanjay Agarwa (Managing Director) DIN: 00010639

Sd/

(Amount Rs. in Lacs)

Canara Bank

Bank as below mentioned on or before 13.03.2024 up to 04.00 p.m.

E-AUCTION SALE OF PROPERTIES on 15-03-2024

Last date of EMD: 13-03-2024

REGIONAL OFFICE, WEST DELHI, PHONE: 011-2845099, 9821711328

E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditors, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank under Section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, will be sold on As is where is, As is what is and Whatever there is basis on 15.03.2024 through E-Auction for detailed erms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in M/s Canbank Computer Services Ltd (M/s Canbank Computer Services Ltd. Mr. Pratap Kanjilal & D.D. Pakhare 9832952602. 9911293517. 080-23469665. E-mail: ccsleauction@gmail.com, No. 218 JP Royel 1st, Sampige Road Maleshwaram Website: http://indianbankseauction.com EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand Draft in fevour of Authorised Officer or shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of Canara

a. Reserve Price (Rs) Account Borrower / Guarantors / Mortgagor Details of movable b. EMD (Rs) of the Total Dues Number & Name & Address immovable property c. Incremental Bid (Rs) Branch IFSC Code d. Date of E-Auction East Patel Property at Plot No. 1822, 1st & 2nd Floor, (with Rs. 81,27,289.40 as a. 66.68.000/ A/c No. Mrs. Bharti W/o Surinder Kumar, House No. Nagar. Roof Rights) Gali No. 41, Joor Bagh, Tri Nagar, New b. 6.66.800/-8312295000001 822/41, First and Second Floor, Tri Nagar, Joo Bagh, Delhi-110035 c. 10,000.00 New Delhi Delhi, Area 2241 Sq.fts. IFSC Code interest thereafter 1. 15.03.2024 CNRB0008312 a. 22.30.000/ A/c No. East Pate Rajeev Goswami & Indushre Goswami, B-80 Flat No. UG-03, on Upper Ground (Back Side Rs. 48,82,344.90 as 8312295000001 b. 2.23,000/--2, DLF Dilshad Extension-II, Sahibabad Portion) Plot No. B/154, Village Brahmpur Alias on 31-01-2024 + c. 10.000.00 New Delhi Ghaziabad Bhopura, DLF Dilshad Extension-II, Ghaziabad, Interest thereafter IFSC Code d. 15.03.2024 CNRB0008312 Area 55.74 sq.mtr. SME M/s Yadav Dairy, H. No. B-99, Sawarn Park-I PROPERTY BEARING NO. B-99, OUT OF KHASRA Rs. 31,20,278.08 as a. 77.97.000/ A/c No. NO. 77/1, SITUATED IN VILLAGE MUNDKA, KNOWS b. 8,00,000/ 209272434 Nanglo Mundaka, Nangloi, Delhi-41 on 28.12.2023 Interest & other c. 10.000.00 Branch AS SWARAN PARK, MUNDKA, DELHI -110041, in IFSC Code New Delh the name of MRS. SAROJ DEVI W/O MR. RAM Charges d. 15.03.2024 CNRB0019015 NIWAS YADAV. Boundaries: As per Deed As per Actual North: Plot of Mr. Mahabir Plot No.B-100 South: Gali 20 ft wide Road East: Plot of Mr. Hans Raj Other Property 15 ft wide Road West: Gali SME M/S VARUN ELECTRONICS, C-440 J Built up property at DDA LIG FLAT NO. 936, THIRD Rs. 42,64,200.84 as a. 36.02.000/ A/c No. FLOOR, POCKET-A, BLOCK-A, "SUNRISE on 26-12-2023 +
APARTMENT" SITUATED AT LOKNAYAK PURAM, interest & other Nangloi COLONY PHASE-II OPPQSITE LOKESH b. 3.60.000/-209272434 c. 10.000.00 Branch CINEMA NANGLOI - 110041 IFSC Code New Delh BAKKARWALA, NEW DELHI-110041 measuring charges thereon CNRB0019015

Date and time of Auction : 15-03-2024 between 12.30 P.M. and 1.30 P.M. With auto extension clause in case of bid in last 5 Minutes before closing The EMD should be deposited on or before 13-03-2024 up to 4.00 pm. The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer on 11-03-2024 between 1.00 PM. to 4.00 P.M. B/o East Patel Nagar (011-25752545, 9654009706, 8368434725, 7017503606), B/o SME Nangloi (9739304322)

441.32 sq ft in the name of MR. UDAY SINGH S/O MR. PAL SINGH, Boundaries: North: Road 15 ft wide

South: Flat No. 937, East: Road 20 ft wide, West: - Flat

& B/o Janakpuri (7735448508, 9821711328) may be contacted during office hours.

SPECIAL INSTRUCTIONS

Biding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest Neither Canara Bank not the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Powe Failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make al the necessary arrangements/atenatives such as backup power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able participate in the auction successfully



ZONAL OFFICE, RECOVERY DEPARTMENT, 1ST FLOOR, 5, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001,

PH:011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

E-AUCTION **SALE NOTICE** (UNDER SARFEASI ACT 2002)

E-Auction Sale of Immovable Property mortgaged to the bank under Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with rules 5,6,7,8 & 9 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002). Possession of the following property has been taken over by the Authorised Officer(s), pursuant to the Notice issued u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 in the borrowal accounts mentioned below with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS" AND "WHAT IS WHERE IS" basis for realization of Banks Dues. Date and time of E-Auction:- 05th March 2024 Between 01.00 P.M to 05.00 PM with

unlimited extensions of 10 minutes each. DESCRIPTION OF IMMOVARIE PROPERTIES.

No. 935.

| | DESCRIPTION OF IMMIOVABLE PROPERTIES | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------------------|--|--------------------|--|---|--|-------------------------|--|
| Sr No | NAME OF BRANCH IFSC NO; EMD A/C Detail, TEL NO & E-MAIL | NAME OF BORROWER & GUARANTOR | AMOUNT DUES [RS /LAKHS] | DESCRIPTION OF PROPERTIES | POSSESSION Type | NAME OF OWNER OF PROPERTY | MRP EMD | DATE OF INSPECTION OF PROPERTIES & CONTACT PERSON | O/S GOVT Dues if any | |
| 1. | Nizamuddin West Branch IFSC CODE: UCBA0000249 EMD ACCOUNT NO. 02490210001172 nizamu@ucobank.co.in | MR. NAVEEN KUMAR VERMA & MS. SHAKUNTALA DEVI | Unapplied Interest | RESIDENTIAL PROPERTY NO. RZ-9/71-B, 3RD FLOOR R.H.S FLAT GALI NO. 12, OUT OF KHASRA NO 501 MIN TUGLAKABAD EXTENTION NEW DELHI 110019 ADMEASURING AREA 450 SQ FT. | POSSESSION | MR. NAVEEN KUMAR VERMA S/O SH. HARKISHAN VERMA | Rs. 15.00 LAKHS RS. 1.50 LAKHS | 01.03.2024 BRANCH MANAGER Mr.DEEPAK KUSHWAHA 8910894042 | Not Known | |
| 2. | Supreme Court Branch IFSC CODE: UCBA0000207 EMD Account no. 02070210000649 Suprem@ucobank.co.in | MR. MAHENDRA KUMAR SHARMA & MRS. MANJU SHARMA | + Unapplied Interest and other | RESIDENTIAL PROPERTY HOUSE NO199, ENTIRE GROUND FLOOR, POCKET-11, SECTOR-24, ROHINI, NEW DELHI-110085 ADMEASURING AREA645.84 SQ FT | POSSESSION | MR. MAHENDRA KUMAR SHARMA S/O R C SHARMA | Rs. 45.05 LAKHS RS. 4.51 LAKHS | 01.03.2024 BRANCH MANAGER Mr. HARISH KUMAR TANWAR 9770702255 | Not Known | |
| 3. | Ghaziabad Branch IFSC Code: UCBA0000850 EMD Account no. 08500210002988 ghazia@ucobank.co.in | M/S KUMAR BUILDER PARTNER1:- MR. VIPIN KUMAR MATHUR PARTNER2:- MS. NEELIMA MATHUR | Unapplied Interest | RESIDENTIAL PROPERTY Flat no. B-538-C 3rd Floor Block B Balmiki Kunj Patel Nagar 2 Ghaziabad (UP) 201001 admeasuring area 247 sqFt. | POSSESSION | Mr. Vipin Kumar Mathur s/o- Late Shri Gopi Chand Mathur | Rs. 7.81 LAKHS RS. 0.79 LAKHS | 01.03.2024 BRANCH MANAGER MR. DEVENDRA SINGH 9654240814 | Not Known | |

OR Mr. Rohit Pahuja (Senior Manager) 9519517777, OR Ms. Rani Kumari (Manager)

Terms And Conditions:

- The auction sale will be "Online E-Auction"/Bidding through e-Bikray web portal invariably. URL for Prospective buyers: https://ibapi.in and URL for Auction website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp. Auction to be held on 05.03.2024 between 01.00 P.M to 05.00 PM as per time mentioned above against above property (IST) with unlimited extension of 10 minutes each.
- All intending bidders shall register with the e-auction portal to create their user ids and passwords. Bidders have to register online by providing their KYC documents and registration fees as prescribed by Service Provider (MSTC). Once the KYC documents are verified by MSTC, the registration will be activated within a period of maximum two working days from the date of submission of all KYC documents and
- Intending bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance which is mandatory for e-bidding from MSTC Helpdesk: 033-22901004, Operation / Registration Status: ibapfin@mstcecommerce.com . Finance / EMD Status: ibapfin@mstcecommerce.com . Helpline e-mail ID: rranjan@mstcindia.co.in.
- Intending bidders are a dvised to go through the website https://ibapi.infor detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceeding.
- Bids shall be submitted through online only in the prescribed format with relevant details.
- Earnest Money Deposit (EMD) for the above property shall be deposited through Fund transfer by NEFT/RTGS only to the Wallet of Service Provider (MSTC) after registration on the portal. Acopy of the bid form along with the enclosure submitted online (mentioning UTR No) shall be handed over to the Authorised Officer/Branch Manager, UCO Bank, respective branches or soft copies of
- the same be forwarded by E-mail to: zonewdelhi.rec@ucobank.co.in The bid price shall be equal to/or more than the Minimum Reserve Price (MRP) but must be in multiples of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) for property no.1 and multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) for property number 2 to 4. Please note that the first online bid (H1) that comes in the system during the online forward auction can be one increment higher than the highest of the bids received upto last date of submission of the bids i.e. higher than the start price by one increment or higher than start price by multiple of increments. During auction, the subsequent bid that comes in to outbid the H1 rate will have to be higher than the H1 rate by one increment value or in multiple of the increment values.
- The successful bidder shall have to pay 25% of the bid amount (including earnest money already paid) immediately on closure of the E-auction Sale process on the same day of the Sale in the same mode as stipulated in Clause 7 above. The balance 75% of the purchase price shall have to be paid within 15 days of acceptance/confirmation of sale by the undersigned to the successful bidder.
- (10) If the successful bidder failed to deposit the bid amount as per schedule noted above, the amount deposited by bidder shall be forfeited.
- 11) The EMD of unsuccessful bidder(s) will be returned on the closure of the e-auction sale proceedings.
- (12) The sale is subject to confirmation by the Bank, if the borrower/quarantor pays the bank in full before sale, no sale will be conducted. (13) The property will be sold on "As is where is and what is where is" basis and the intending bidder should make discreet enquiries as regards to the property of any authority besides the banks charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting their bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges, encumbrances over the property on any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid.
- (14) The undersigned has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/postpone/cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any
- reason. (15) The purchaser shall bear the stamp duties, charges including those of sale certificate registration charges, all statutory dues payable to Government, taxes/GST and rates and outgoing both existing and future
- relating to the property. The sale certificate will be issued only in the name of successful bidder.

 (16) The sale is subject to conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rule 2002 and the conditions mentioned above.

This publication is also 15 days sale notice to the above mentioned borrowers/guarantors/mortgagors under SARFAESI Act 2002." DATE: 14.02.2024, PLACE: NEW DELHI **AUTHORIZED OFFICER, UCO BANK**

PUBLIC NOTICE . Praveen Chandra Singhal S/o Late Shri Ƙaj mar Agarwal and his wife Smt. Archana Si

umar Aganvai and his wire smc. Archana singhai, oth R/o E-7, Shalimar Imperial Appts., 13 Gokhale larg, Lucknow 226001 have severed all their

lations with their son Mr. Anshul Agarwal and

aughter-in-law Mrs. Swati Gupta due to their

ognetation with a wall dupta due to their sconduct. Both of my above-named clients have o disowned and debarred their saids on along with wife from all their movable and immovable operties and social relationships of the society. Any

rson dealing with them will do so at his/her own isk and costs and my clients shall not be responsible

FORM NO. URC - 2 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI

[Pursuant to section 374(b) of the

companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register

Rules, 2014]
1. Notice is hereby given that

pursuance of sub-section (2) of section

366 of the Companies Act, 2013, an

application has been made to the

SAVIAN CONSULTING LLP, a LLP may

be registered under Part I of Chapte

XXI of the Companies Act 2013, as a

2. The principal objects of the compan

To carry on the business of providing

consultancy, software solution and

services that are normally offered by the

outsourcing business and information

technology services providers, the

software development houses and

A copy of the draft memorandum and

articles of association of the proposed

company may be inspected at the office

at D 1/1204, KH NO 33/9, GALI NO 30,

Harsh Vihar, Delhi, North East, Delhi

. Notice is hereby given that any persor

objecting to this application may

communicate their objection in writing to the CRC, IICA, Plot No. 6,7 & 8

Sector 5, IMT Manesar, Haryana 122052

within twenty one days from the date of

publication of this notice, with a copy t

Dated this 15th day of February 2024

Name(s) of Applicant 1. Mr. Ankush

2. Mrs. Saroj Tiwari

the company at its registered office.

application services providers.

company limited by shares.

are as follows:

10093, India.

Registrar at DELHI that M/s GLOBAL

Ved Vyas Tripathi(Advocate) Enrolment no.:-UP07984/2010

he General Public is hereby informed that my clients

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the Publi Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd scheduled for 24th February 2024 stands postponed and re-scheduled for 18th March 2024 The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch Office of our client.

Kohli & Sobti Advocates

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date against payment of dues of our client. Customer can also contact to Email ID recoverynorth@muthootgroup.com or Call on 7834886464,7994452461.

MPL

MAITHON POWER LIMITED

(Contracts Department)
Maithon Power Ltd, Village: Dambhui, PO Barbindia, PIN-828205, District-Dhanbad NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST The Maithon Power Limited invites expression of interest from eligible

llowing package: -Running of Urja Awaas and Plant Canteen at MPL

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc., please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tender/ist.aspx). ligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 26th Feb. 2024.

) बैंक आंफ़ बड़ीदा Bank of Baroda बिक्का

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [See rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Bank of Baroda, Branch Saraswati Vihar, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the power conferred unde Section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice dated 05.12.2023 calling upon the borrower Mr. Ajay Srivastva s/o Jagdish Prasad Srivastav residing at Address: E-1/134, First Floor, Sector-16, Rohin DELHI 110089 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9.75,714.60 (Rupees Nine Lakhs Seventy Five Thousand Seven Hundred Fourteen and Sixty Paise Only) as on 05.12.2023 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of the payment within 60 days from the date o the receipt of notice.

The Borrower/ Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties/ assets described herein below in exercise of powers conferred on him under Section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 08.02.2024.

The Borrower/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said Property/ assets and any dealings with the property/ assets will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Saraswati Vihar Branch for an amount of Rs. 9,75,714.60 (Rupees Nine Lakhs Seventy Five Thousand Seven Hundred Fourteen and Sixty Paise Only) as on 05.12.2023 together with further interest thereon a the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of the payment.

The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of section 13 of

the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Described of the Immovable Property:

Equitable mortgage of property bearing No.-134, Block-E, Pocket-1, admeasuring 33.66 sq mtrs in Sector-16,Delhi-110089 in the name of Mr Ajay Srivastav S/o Jagdish Prasad Śrivastav. Bounded As: North: Service lane. South: Road 9 Mtrs wide

East: Plot No 133, West: Road 9mts wide

DATE: 08.02.2024

M/S. SHREE HARI CHEMICALS EXPORT LTD.

Regd. Office: A/8, MIDC, Industrial Area, Mahad Dist: Raigad (Maharashtra) CIN: L99999MH1987PLC044942, Tel No. 02145-233492,

e-mail:info@shreeharichemicals.in, website:www.shreeharichemicals.in EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND

NINE MONTH ENDED 31st DECEMBER, 2023 (₹. In lacs) (Except EPS QUARTER ENDED NINE MONTH ENDED YEAR ENDE 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Particulars UNAUDITED UNAUDITED 3,918.84 10,541.41 7,162.44 10,257.50 Income From Operation (Net) 3,697.83 3.904.81 Net Profit/(Loss) From Ordinary Activities (Before Tax, Exceptional And Extrordinary Items) 138,60 108.17 -1.285.78 -86.07 -2.470.16 -2.644.92 Net Profit/ (Loss) For The Period Before Tax 108.17 -1,285.78 276.60 -2,470.16 -2,644.92 (After Extra Ordinary Items) 138.60 4 Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Extra Ordinary Items) 103.60 81.49 -967.57 201.55 -1,854.04 -1,980.22 81.49 -967.57 201.55 103.60 -1.854.04 -1.960.94 Total Comprehensive Income After Tax Paid Up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- Each) 444.63 444.63 444.63 444.63 444.63 444.63 Earning per share (of Rs. 10/- each) 2.33 1.83 -21.76 4.53 -41.70 -44.10

he Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rule 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting

2.33

1.83

-21.76

4.53

-41.70

-44.10

held on February 14, 2024 The Company operates in a single business segment and therefore, has only one reportable segment in accordance with Ind AS

108 "Operating Segments"

The figures for the previous period has been regrouped/reclassified, wherever necessary in order to conform to the current grouping/classification.

By Order of the Board for SHREE HARI CHEMICALS EXPORT LTD. B. C. AGRAWAL CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

[DIN:00121080]

Place : Mumbai Date: February 14, 2024

Diluted:

Notes:

Circle Sastra Centre, Bharatpur SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (5) and Guaranto; that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is". "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

| SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Lot no. | Name of the Branch Details of the borrowers/ guarantors | Description of properties along with name of mortgagors (Owner of the properties) | (A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002 (B) Outstanding amount | Nature of possession & date | (A) Reserve Price (B) EMD amount/ last date of EMD deposit (C) Bid Increase value | Date/time of e-auction | Details of any other encum- brance | |
| 1. | PNB-Branch: Kaman, Bharatpur, Distt. Bharatpur (Raj), Mob. No 9462183839, 99001977333 E Mail - bo2333@pnb.co. in M/S BANSAL TYRE (Proprietor Sh. Ramesh Chand Bansal S/O Pooran Chand Bansal) | Residential House & Building Situated at Near kosi chauraha deeg road k a s b a K a m a n Admeasuring Area-137.10 SOM In the name of Shri Ramesh Chand Bansal S/o Pooran Chand Bansal) Four Corner of said property East-Rasta Kachhi Taliya Westhouse of Vishmcber Dayal, North-Foot Path Kaman to deeg road, South-land Khasra no 4960 | (B) 25,30,193/- (Rupces Twenty Five Lakh Thirty Thousand One Hundi three Only) as on16 further interest and ot | Taken on 30.01.2024 ed and ninety .10.2023 and | A) Rs.46,56,000/- B) Rs. 4,65,600/ 16.03.2024 C) Rs. 50,000/- | 18/03/2024 11:00 AM to 16:00 PM | Not Known | |
| 2. | E Mail - bo8726@pnb.co.in - Shri Brajesh Kumar Singh Sikarwar - Mrs Sharada Singh | Hundwalpuram Colony, Dholpur, Rajasthan. Admeasuring: Area 1800 sqft in the name of Shri Brajesh Kumar Singh Sikarwar. Bounded by: East: 45 feet, 0" Plot No.44, West: 45 feet 0" Plot No. 45 Part, North: 20 feet 0" Rasta, South: | (B) Rs. 945816.06 (Rupees Nine Lakh Forty five Thousand eight Hundred sixteer Only) as on 30.09.20 interest and other cha | 16.01.2024 and six paise 23 and further | | 18/03/2024 11:00 AM to 16:00 PM | Not Known | |

TERMS AND CONDITIONS- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have enstated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on above mentioned date 4 For detailed term and conditions of the sale, please refer https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app ,http://www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Date: 15.02.2024 Place: Bharatpur/Dholpur



























निर्भीक इंग्लैंड के खिलाफ मध्यक्रम की कमजोरियों से पार पाना होगा भारत को

राजकोट, (भाषा)। भारतीय टीम गुरुवार से जब यहां इंग्लैंड ताफ तीसरे देस्ट के लिए उतरेगी तो उसे निहर और चतुराह भरा क्रिकेट खेलने के अलावा मध्यक्रम की कमजोरियों का भी समाधान ढुंढना होगा।

वान व्यान स्थान इंग्लैंड ने हैटराबाट में श्रंखला के पहले मैच में भारत को मेजवान लेकिन टीम विशाखापत्तमा में दूसरे टेस्ट में वापसी करते हुए पांच मैच की शंखला।-। से बराबर कर टी।

वशस्त्री जावस्त्राल (3.21 रन) और जसप्रीत वमराह (1.5 बिकोट) ने शानदार प्रदर्शन करते बुए भारत की जीत सुनिश्चित की लेकिन मध्यक्रम टीम की चिंता का सबब बना हुआ है जहां योगटान देने की जिम्मेदारी अब यवा प्रतिभाओं पर है।

आठ दिन के बेक से ण्या अप्तान रोहित शर्मा की बल्ले से खराज फॉर्म ने भारतीय जल्लेजाजी क्रम की चिंता बढ़ाई ही है। भारतीय टीम इस मैच में लोकेश राह्ल के बिना उत्तरेगी जबकि

77 नितेश 71 मयंक गंदा 3/10

विराट कोहली पूरी श्रृंखला से वाहर हो गए है। पित्रले लगभग एक साल से

अपनाया है लेकिन बडी परियां खोलने में नाकाम रहे हैं। मौजूरा स्थिति को देखते हुए टीम को अपने कप्तान से नहीं पारी की उम्मीद होगी।

राहुल के अनुपलक्य होने से मंबर्ट के बल्लेबाज मरफराज खान को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है। आगर पेस होता है तो घरेलू क्रिकेट में देशे र न जनाने बाले सरफराज एक टेस्ट खोल चुके रजत पार्टी दार के साथ मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। दंग्लैंड की टीम भारतीय

मध्यक्रम की अनुभवहीनता से अच्छी तरह बाकिफ है। विरोधी टीम के मजजूत अध्ययन और आक्रामक खेल से दंग्लैंड की टीम वांछित नतीजे हासिल करने मे सफल रजी है।

विकेटकीपर केएस भरत की बल्ले से लगातार नाकामी को टेखाते हुए भारत के उत्तर प्रदेश के

संक्षिप्त समाचार

डीडीसीए लीग: विशांत का शतक

नर्द टिल्ली. (खेसं)। विशांत भारी 103 रन का शतक आरब गौत

3/21 रुटा सिंह 3/39 कि मटट से हर्षा स्पोर्टस ने एल आईसी को 7 विकेट से हराया। ब्रीफ स्कोर एलआईसी 159/10 इन 31 ओवर संटीप कुमार 69

आरब गीतम ३/२। रुटा मित्र ३/३० तर्षा स्पोर्टम १६०/३ टन २६ ओवर

बिशांत भाटी 103 रन गर्वेंद्र कुमार 2/31 दिल्ली मुद्धमिनिस्ट्रेशन की जीत: नितिन दलाल 77 नितेश 71 कि

हॉफ सेंबुरी पारी योगेश कुमार 4/43 अमन कुमार 2/27 की मदद से दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन ने मलिक स्पोर्टेस को 6 बिकेट से मात दी। ब्रीफ

स्कोर मलिक स्पोर्ट्स 163/10 दन 33 ओवर नार्टिक पंजवनार्द 90 योगेश कुमार 4/43दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन 166/4 इन 24 ओवर नितिन दल

योग गर्मामिनोषान की जीव- महंक जिल्हा हुए हुए उस उपलब्ध महंक गर

50 कि हॉफ सेंबुरी भव्या दीय 4/25 निखाल भारहाज 2/34 कि मदद से

अंग एसीसियान ने दिल्ली जिस्सुवा को 110 रनो से मात दी। ब्रीफ रकोर यंग एसीसियान ने दिल्ली जिस्सुवा को 110 रनो से मात दी। ब्रीफ रकोर यंग एसीसियेंंंगन 215/10 इन 33 औबर मर्थक निगम 63 नाबार मर्थक पाल 50 दीवांग्र नेगी 3/36 पुलकित खबा 3/45 दिल्ली जिमखाव 110/10 इन

मिश्रा स्पोर्टस जीती: रिषभ राना 66 रन विष्ण सिंह 3/23 तरणदी

सित 2/13 डिन 2/17 को उपयो गेंदबाजी के चलते मिश्रा स्पेर्टस ने एसेक्स फार्म को रोमांचक मैच में 2 बिकेट से हराया। हारी टीम से आलोक प्रकाश 6/28 की उपयो गेंदबाजी रही। ब्रीफ स्कोर एसेक्स फार्म 138/10 इन 32

ओवर कपिल ढाका 82 विष्णु सिंह 3/23 तरनदीप सिंह 2/13 मिन्ना स्पोर्ट्स 141/8 इन 36 ओवर रिषम राजा 66 रन आलोक परकाश 6/28

प्रान्तवी शास्त्री कलव जीता : टीपेश जाल्यान ८५ रन समित चिकार । हॉफ सेंचुरी दक्षित निशाल 3/24 निखिल कुमार 3/38 की मदद से

एलजी शास्त्री बलंब ने फ्रेंड्स ठिकेट बलंब को 48 रेनो से बराया। बारी टीम

से ईशान अरोड़ा 65 रन 2/38 कवीर कोहली 44 रन 3/44 का शानदा प्रदर्शन रहा। ब्रीफ स्कोर एलवी शास्त्री 248/7 इन 40 ओवर टीपेश

ल्यान 85 सुमित चिकारा 60 कजीर कोहली 3/44 अंकित जिष्ट 2/38 फ्रैंड्स क्रिकेट क्लव 201/10 इन 40 ओवर ईशान अरोड़ा 65 कजी

कोहली 44 सुनील 42 ईश्वित निशल 3/24 निखिल कुमार 3/38 जितिज सिंह का शाजदार खेल: मेन ऑफ दा मैच नितिन सिंह के

दने 2/20 के शानदार खेल की बदौलत रण स्टार क्रिकेट क्लब ने ख

ानदार नाजाद अर्दशतक 58 नॉट आउट काव्य 47 सर्वकांत 2/22 शभम

कोलेज ग्राउंड में खेले जा रहे 10 वे साहिवजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह 20 20 क्रिकेट ट्रनिमेंट में बिद्या जैन क्रिकेट अकैडमी को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की पराजीत टीम की ओर से अब्दुल बाशिम ने

57 नॉट आउट और मोहमद सनाकारीम 2/20 का शानदार खेल रहा। वैभव सूद शतक से चूका: वैभव सूद के शानदार खेल 94 रन नॉट ऑक्ट 55 वाल 5/4 5/6 ईश पालीवाल 2/14 रिशव रागा 2/15 वे

शानटार खेल की जटौलत उटयभान हिकेट अकेंद्रमी ने खालसा कॉलेव

क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे दसमें साहिबजादा जोराबर सिंह फतेह सिंह 20 20 क्रिकेट ट्रनिमेंट में एमिल टीम को 27 रनो से हराकर शानदार जीत

दर्ज की पराजित टीम की ओर से हर्ष भट्टी 33 ओर आंजनिया ने शानदार

नामधारी एफसी व श्रीनिधि डेक्कन जीते

किरवे।

नामधारी और नेरोकत कत

मुकानला द्वा की ओर नह रहा था लेकिन हाओकिप ने आखिरी

सीटी जजने से कुछ समय पहले (903 मिनट) गोल कर टीम की

जीत सुनिश्चित कर दी। टीम के लिए दो अन्य गोल आकाशदीप

सिंह (35वां मिनट) और हरमन्द्रीत सिंह (43 वां मिनट) ने

22 ओवर जीतन सिंह 37 भव्या दीप 4/25 निखिल भारद्वाज 2/34

23 साल के ध्रुव जुरेल को मौका 23 साल का ञ्रुव जुरल का माका देने की संभावना बढ़ गई है। जुरेल आक्रामक बल्लेवाजी के लिए भी

जरेल ने 15 प्रथम बेणी मैच में भूरत गाउँ जन्म कराया है 46.47 की औसत से रन बनाए हैं और राजकोट की पिच के पूरी तरह से स्पिन के अनुकूल होने की संभावना नहीं है और ऐसे में उन्हें अगर पदार्पण का मौका मिलता है तो उनके लिए आसानी होगी।

स्थानीय खिलाडी चेते*श* पजारा अब भारतीय चयनकर्ताओ की योजनाओं का हिस्सा नहीं है लेकिन एक अन्य स्थानीय खिलाडी रबिंद जडेजा से टर्शको _____ सब्द जहजास दर्शको को काफी उम्मीटे होंगी। शुरुआती टो मैच में इंग्लैंड के स्किमों ने रोजना स्थितरों ने मेजजान टीम के स्थितरों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

आंकडे हालांकि कहानी का सिर्फ एक पद्म नयां करते हैं और इस हिसान से भारतीय स्थिनर (38.30 के औसत से विकेट) इंग्लैंड के स्पिनरों (33.90 के औसत से विकेट) से काफी पीछे नहीं है।

सिंध की जीत के साथ वापसी, भारत ने चीन

को 3-2 से हराया शाह आलम (मलेशिया), (भाषा)। टो बार की ओलंगिक पटक (भीषा)। टा बार का आलावक पर्यन बिजेता पीबी सिंधू ने चीट के कारण बार महीने बाद बायसी करते तुए बुधबार को यहां जीत दर्ज की जिससे भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैपियनशिप (गीएटीसी) की महिला स्पर्धा में चीन की मजबत टीम को 3-2 से हराया। ग्रुप डब्ल्यू में सिर्फ दो टीम होने के कारण पहले मुकानले से पूर्व ही भारत की नॉकआउट में जगह सुनिश्चित थी नॉकआउट में जगह सुनिश्चित थी लेकिन टीम ने शीर्ष बरीय चीन को बराकर शास से सॉक आसर में प्रवेश राकर राजसायाः च्या २०२२ हवा।थॉमसाकप २०२२ और पिछले साल एशियाई खोलों मे पत्रली जार रजन पटकर जीतने वाली गरतीय पुरुष टीम ने भी हांग के खिलाफ 4- । की आसान जीत से पुप ए से नॉकआउट में जगह बनाई। हांगकांग को मंगलवार को चीन के विलाफ भी ०-६ से शिकस्त दोलरी पड़ी थी। भारतीय पुरुष टीम गुरुवार को शीर्ष वरीय बीन से भिड़ेगी जिससे ग्रुप विजेता का फैसला होगा। पिछले . साल फेंच ओपन के टौरान घुटने में लगी बोट के बाद से रही सिंध ने अपने से जेजतर रैंकिंग बाली हेन युर्द को 40 मिनट में 21-17 21-15 से हराकर भारत को। 0 की बद्धत दिलाई। दो बार की ओलंपिक परक विजेता 28 साल की सिंधू की विश्रहैकिंग 11 जबकि

21 से शिकस्त वेलनी पडी

कोपेनहेगन, (एपी)। केविन हि बून ने एक गोल करने के अलावा टो ल करने में मदद की जिससे मैज्येस्टर सिटी ने चैपियन लीग फुटबॉल ट्रामिट के प्री डार्टर फार

पहले चरण में एकसी कोपनहेगन को ३-। से बराया। मैनचेस्टर सिटी हेन बुई की आठ है। तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनपा की जोड़ी को इसके बाद ल्यु शेंग शु और टेन निंग ने चैंपियन्स लीग में लगातार नौ मुकाञले जीते हैं जो इंग्लैंड की किसी टीम की ओर से लगातार की जोड़ी के खिलाफ 19-21 16-सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड है।

मुख्य परियोजना प्रबंधक विददुत/गति शर्मित/उत्तार रेलवे, ठीआरएम कार्याट ली— 110001 द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई—निवेदा आगंत्रित की जाती है। इसे दिनांर ट पर अचलोड कर दिख जायेगा। गग दिल्ली में गई दिल्ली वार्ड को जर करने के लिए कुठु मार्ग के बीच रेक्को लड्डग पर एक बिरे से दुस्तरे सिरे तर के गिर्माण के सिर 25 की प्रश्ति सिंगल फेज ओएका . अक्पृत्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीदार्मिंग। करन के लिए) य काम की लागत रु. 96,04,994;9\-(फियानवे लाख, चार डजार, नी खे हा जानों तैरिक्त 1,022,200 को व्यक्तिवादिवाद वेद साहद के सितंत में क्रांस्त्र कुकुक्त भर एनिकेंद्र मानते कर दिवा प्राचित्र मिनिवादाता ई-निविद्धा में स्थान के सकते हैं, प्रकृति 600,200 के नोउठ के की तीनी सामित्र पर प्रवास हैं। प्रकृति मिनिवाद स्थानिक क्रांस्त्र में क्षात्र के हैं पर प्रवास हैं। प्रकृति मिनिवाद स्थानिक क्रांस्त्र मिनिवाद स्थानिक स्थानिक क्रांस्त्र मिनिवाद स्थानिक स्

ायः निविदा संख्या 15-DyCEE-GSU-DLI-23-24R2 आर्गत्रित करने हेतु सूच

एफसी पर 3-0 से जीत दर्ज की रेहान का बीजा 🎼 🛚 मामला सुलझा

41 रानो की शानदार पारी खेली।

लिधवाना, (भाषा)। नामधारी

र्र्नामेंट में बिपरीत अंदाज में जीत

टुर्ज करी। नामधारी ने पीटर

मेमिनधांग बाओकिय के आखिर क्षणों में किये गये गोल के दम पर नेरोका एफसी को 3-2 से हराया जबकि श्रीनिधि ने टीआरएयू

और श्रीनिधि हेबकन ने नधवार को आई लीग फुटबॉल

राजकोट , (भाषा) । भारत सरकार और वीसीसीआई के हस्तक्षेप के कारण दुवा लेग स्पिनर रेहान अहमद का बीजा मुद्दा कम समय में सुलद्ध गया जिस पर इंग्लैंड के कप्तान नेन स्टोक्स ने नधवार को राहत की सांस ली।

पाकिस्तानी मूल के स्पिनर अहमद के पासे राजकोट आगमन पर एकल-प्रवेश बीजा था। वह हालांकि भारत के खिलाफ तीसरा टेस्ट शुरू कागजी कार्बार्ट परी करने मे सक्षम रहे। स्टोबस ने तीसरे टेस्ट मैच से पहले कहा, किसी भी व्यक्ति के लिए बीजा का दंतजार करना हमेशा तनाव वाला समय होता है।

उत्तर रेलवे

र्थ-नीलामी सूचना

/ यात्री लेवा, उत्तर रेलये, दिल्ली मंडल, गई दिल लॉटल,/साइट्स के वावंटन हेतु ई-नीलामी, अध्धः म्मिरिकित क्रकार से अमंत्रित की जाती है-की क्रिक मंखल वाणिज्य प्रबंधक / यात्री लेवा, उत्तर रेलवे,

| ई-केटलॉग संख्या | ई-नीलामी की तिथि एवं समय | रेलवे स्टेशन / स्थान / साइट् |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| PaynUse01- 2024 | विनांक 01.03.2024 को 15:00 बले | तिसक ब्रिस (TKJ) - 2 साइट्स, शिवाणी ब्रिज (CSB) - 1 साइट्, पटेल नगर (PTNR) - 1 साइट्, भेरठ केंट (MUT) - 1 साइट्, कुरुक्षेत्र (KKDE) - 1 साइट्। कुल 6 साइट्स / श्यल |
| PaynUse02- 2024 | 29.02.2024 को 15:00 मधी | जोकला (CKA) - 1 साहट, हजरतः निजापुरीन (HNZM) - 5 साहट्स । जुल 6 साहट्स 🗸 स्थल |

नसाइट विवरण जहां ई-नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है : https://ireps.gov.in/

शिलाह निकार जाते हैं-सिक्सी का पूरा शास्त्र रहता जा सकता है : ताब्कुकाराक्रकुक्तकार । शिल्किसी के साम के में मार केवार में मार पूर्वास है-सर्वास्त्र प्रीवृत्ति के हैं सिक्सी सीकिंग मार्युक्त के सामान से कार्योक्ष है-सिक्सी में बार ऐसे के इच्छुक करी रोकेशमाँ को सीक्तां क्या करने के साथ निक्सितिक कोवार्ति कारास्त्रकारों को यह करना चाहिए है-सीक्सी सीक्तां मार्युक्त के शिल्का कार्युक्त कार्युक्त कार्युक्त के सिक्सा कार्युक्त के लिए सीक्ता कार्युक्त के लिए सीक्ता कार्युक्त के लिए सीक्ता कार्युक्त के सिक्सा कार्युक्त कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कार्युक्त कर सिक्सा कर सिक्

र्वित जानकारी हेतु, रेखवे प्राधिकारी :

पिछली कुछ घरेल् श्रृंखलाओं स्पिनरों का दनदना देखने को मिला है लेकिन मौजूदा श्रृंखला में तेज गेंदबाज भी भूमिका निभा रहे

ते और जमरात्र से भारत के लिए जिलार परर्शन किला है। शानदार प्रदेशना कथा है। पहले दो टेस्ट में बुमराह ने शानदार गेंटवाजी की और टीम की शी।

के प्रतिष्ठित स्पिनरों को कुछ हट क आतार्थत ।स्पन्स का कुछ हर तक बचा लिया जो स्पिन की पूरी तरह से अनुकूल पिच की गैरमीजूटगी में काफी प्रभावी नजर बनी आण है। नकोट की पिच पारंपरिक

रूप से जल्लोजाजी के अनकल होती है और भारत को बाएं हाथ के स्पितरों कुलटीप यादव और अक्षर पटेल में से किसी एक को चूनना होगा। बेहतर बल्लेबाज होने कारण अक्षर का पलडा जालांकि भारी है।

हाला।क भारा है। भारत के शीर्घ स्थिनर रिविचंदन अधिन के नाम 499 विकेट दर्ज हैं और इस मैच के दौरान उनके 500 टेस्ट विकेट के एलीट अलग में शामिल होने की परी उम्मीट है।

> नर्द दिल्ली.(खोस)। एथाम कर्षलेल जे

. 2024 में पुरुष बर्गकी ती चैषियनशिष जीती।

लाल कालाज न जानिया युनिवर्सिटी को सहन हेथा में 5-

से बराकर टिल्ली ओलंपि

निर्धारित समय में मैच 1-1 की

बरागरी पर रहा। पेनल्टी शृटआउट में भी 3-3 का स्कोर

रहा। सहन हेथ में श्वाम लाल कॉलेज ने जीत हासिल की। श्याम लाल कॉलेज की तरफ

ਸੇ ਸਿਘੀਟਿਰ ਸ਼ਸ਼ਕ ਸੇ ਹੀ। ਤੇ

तरफ से प्रधान ने गोल किया।

यूनाइटेड बलाव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज को 10-1 से

मुखर्जी कालिज का 10-1 स हराया। यूनाइटेड क्लज ने की तरफ से शुभम और मुस्कान ने तीन-तीन गोल किए, रिब्या ने रो गोल, सोनू और अंजलि ने एक-एक गोल किया। श्यामा

प्रमार माखर्जी कॉलेज की तरफ

मैनचेस्टर सिटी जीता

च में फेथ बलाश ने जीएस

ਸਵਿਕਾਰਸੰ ਕੇਟ ਸਮਤਕਰ ਸੇ

रंग्लैंड को उसी तरह सही कदम उठाते रहने होंगे जैसे वे अव तक भारत होरे पर उठाते रहे हैं। दंग्लैंड की टीम ब्रेक के दौरान

अब धाबी में समय बिनाने के बाट स लौट चुकी है। टीम ने भारत की तैयारी अन् भानी में ही

रखने के बाद से स्थिनर टॉम हर्टले का आत्मविश्वस काफी बढ़ चुका है। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंध से भारतीय बल्लेबानों को काफी परेशान किया है और उनकी आक्रामक बल्लेवाजी टीम

की मनसिकता के अनुक्ल है। जो रूट स्पिन गेटवाजी का बोझ भी उठा रहे हैं लेकिन इंग्लैंड के पास आपने दस सबसे सीनिय अलावा कोर्ट विकल्प नहीं है अलावा कार ावकार्य नहां ह क्योंकि जैक लीच घुटने की चोट के कारण श्रृंखला से नाहर हो गए है। टीम को हालांकि उनसे ाजी में बेहतर प्रदर्शन की उस्सीट बोगी।

श्याम लाल कॉलेज ने जीता दिल्ली ओलंपिक गेम्प हॉकी खिताव

ओली पोप ने बैटरावाट में

ज्याम लाल कॉलेज की टीम टॉफी के साथ।

ज्ञन स्पोर्ट्स अकैहमी को

किया। फेथ कला की

4-2 से हराकर तीसरा स्थान

तरफ से भारत ने टो गोल.

रोहित और सुमित ने एक-एक

गोल किया जशकि जीग्रस

केशब और साहिल ने एक-एक

गोल किया। महिला वर्ग के हार्ड लाइन मैच में जीएस

एजुकेशन स्पोटर्स अकाटमी ने

से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त

अकारमी की तरफ से कुसुम

किया। जीपरा स्पोटर्स

लमिल हॉकी सेंटर को 4-0

स्पोर्ट्स अकारमी की तरफ

जीत की नींब रखी थी लेकिन इसरे टेस्ट की दोनों पारियों में गुकर १८१८ यम दोना यार्या न गुकाम रहे। जॉनी वेयरस्टो भी उम्मीट के मताजिक नहीं खेल पाए हैं । सौवां टेस्ट खोलने की दहलीज

होरे एर बना एकबीए क्रोहिक्स के 128 रन की पारी खेली थी। उन्होंने मौजूदा श्रृंखला में अपनी नेतत्बधमता से प्रभावित किया है और तीसरे टेस्ट में भी उनसे साइसिक फैसले लेने की उम्मीट है।

पर खडे वने स्टोबस ने 2016 वे

टीम इस प्रकार है: भारत: रोजित शर्मा (कप्तान), जसपीत गुमराह, यशस्त्री जायसः शभमन गिला, रजत पाटीटार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, आर अधिन, रविंद्र जहेजा, अधर प्रदेल, बाष्टिगरन संदर कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप और

देवदत्त पहिनकल। द्वंत्रलैद्धः वेन स्ट (कप्तान), रेहान अहमद, ो बेन स्टोबस पंडरसन, गस एटकिसन, जॉनी

रोप्स 2024 होंकी टूर्नोमेंट में पुरुष वर्ग की विजे

अंजलि कुमकुम और विधि ने एक एक गोल किया। समापन

समारोह में दिल्ली हॉकी के

छात्रहा, सीनियर हॉकी प्लेयर

थी राकेण जाली और रोणाचार्य

जी ने पुरस्कार दिए। दिल्ली ओलंपिक गेम्स 2024 हॉकी ट्र्नॉमेंट पुरुष और महिला वर्ग में दिल्ली हॉकी, दिल्ली

ओलंपिक एसोसिएशन और श्याम लाल कॉलेज की

साबेदारी से श्वामलाल कॉलेज में संपत्र हुआ।

ग्गार्ड विजेता श्री एन एस सैनी

भाइस ग्रेसिडेंट श्री

लॉरेंस. जैंक क्राउली, वेन इकेट. वेन फोक्स, टॉम हार्टले, ओली पोप, ओली रॉविन्सन, जो रूट

सार्वजिनिक सूचना स्वत्य को नह सुधित किय जाता है वैतिक दल "यंग वीनिकर रिप कोंगत र ह सर्वी के तम के वित्तदृष्टिक होना हक पार्टी कार्यात्मा फोर पार्टी, देशेर मार्टी कार्यात्मा फोर पार्टी, कोंग्रेस amforfine ामार कि वा ता वे नम वे निकादील हो। न-उसकी को कर्मन कोट राज्य है। किसी, में गर्ड, गुंद-स्थादल, अंध्र पत्र है। इस मां ने गर्ड मिर्गियल है। के बी बात कर कर कर्माण का नहीं है। ता पीकादीला के क्या का कर के क्या का करवाहील क्या के कर्म के क्या का करवाहील हो। क्या पीकादील हों के स्थाप का निकादील हों करवाहण किसामी इस्ति नाम्म कीलावाहील हों करवाहण किसामी इस्ति नाम क्या करवाहील करवाहील करवाहील क्या क्या करवाहील क्या करव

NEW DELHI
PROCLAMATION REQUIRING
ATTENDANCE OF DEFENDANT
(I/IO 5 Rule 20 PC)
Case Reg. No.: CS
(Commi)281/2022
Next Date of Hearing -29.02.2024
ICICI BANK LTD. PLAINTIFF

AAMIR KHAN ...DEFENDANT

Given under my hand and seal of the court, this 25.01.2024. e court, this 25.01.2024.

DISTRICT JUDGE
(COMMERCIAL
DIGITAL- 04 (SOUTH) SAKET
NEW DELH

और मार्क बुड़। स्रामयः मैच सुनह साढ़े नौ वने शुरू होगा।

श्रीभोक्ट दू पीतिक सीवियदर, कम्पान दिवस्तर, कम्पान दिवस्तर, तेमान स्वामीय: श्रीम सबू ह. हमू बहुनीयह व निव्ह स्वामीय: श्रीम सबू ह. हमू बहुनीय: हमू त्या हम्मान सुंदर हम्मान सु N THE COURT OF SH. RAJEE BANSAL, DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL), DIGITAL-04 (SOUTH), SAKET COURTS, NEW DELHI

To MAMIR KHAN, SIO MOHD.
REYAZ KHAN, PROPERTY NO.
AS D FIRST FLOOR, SUNLIGHT
COLONY II. DDA FLATS.
ASHRAM, DELHI-110 014
ALSO AT: A-49, BASEMENT,
NOIDA, SECTORS, NOIDA,
GAUTAM BUDH NAGAR,
NOIDA -2013 AND HARMER DECRIA
DHARMER, UTTAR PRADESH-

DHARMER, UT IAA 274 905 2. MERAJ A-50, FF, SUNLIGHT COLONY-II, DELHI-110 014 MOB NO. 886047792. ALSO AT: 250 KHA DHARMER KHAND, DHARMER THEIL, SALEMPUR DISTRICT DEORIA. UTTAR PRADESH. A-49. BASEMENT, NOIDA, A-49. BASEMENT, NOIDA,

OA 493/2023 ICICI BANK LIMITED VS HITENDER KUMAR & ORS

SECTOR-128. NOIDA, UTTAR PRADESH- 201 301 (4) JAYPEE INFRATECH LIMITED, SECTOR-128, NOID UTTAR PRADESH- 201 301

applicant has instituted a case for recovery of RS. 72,86,267.59. (Rupees SEVENTY SEVENT SIX LAKH EIGHTY SI: THOUSAND TWO HUNDRE! SIXTY SEVEN AND FIFTY PAIS, ONLY) against you and whereas has been shown to the satisfaction make appearance before Registrar on 23.04.2024 at A.M. (for further details kind) DRT website www. for further details kindly visi website www.etribunal.gov.ir is Number: 011- 23748473 notice that in case of you is to appear on the above ioned day before this ial, the case will be hear and decided in your absence.
Due to ongoing Pandemic
Situation, all the matters will be
taken up through Video
Conferencing and for tha
purpose: All the
Advocates/Liticates

Respondent may cont under mention Phone further enquiry. Mr. Amit K. Dar, Ld. Registrar DRT-1, Phone No. 011-237484

अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यात्रयः बेटरामपुर रोड. खांडसा गांय, गुक्तग्राम, हरियाणा—122001, भारत, । CIN: L17226HR1984PLC033384, E-mail: aml_delhi@yahoo.com, Website:

| ज सं | विधरम | समाना | तिमादी | समान्त | समान्त एकल मिळला वर्ग | |
|---------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | 31.12.2023 (अ केखामरीकित) | 30.09.2023 (अस्रेजा मरीकित) | 31.12.2023 (अस्रेजामरीकित) | 31.12.2022 (अरंग्रजामरीकित) | 31.03.2023 (फ्रेंखामरीमित) |
| 1 | प्रचारानों से कुरा आप (नियर) | 3,267.06 | 3,287.94 | 9,752.14 | 14,102.38 | 17,778.83 |
| 2 | अवधि के तिए निवत राम/(दानि) (कर, अनवादात्मक और / य अतिविधि। द मर्दों से पूर्व) | 198.55 | 138.77 | 739.21 | 365.10 | 78 1.20 |
| 3 | कर पूर्व अवदि के तिए नियत राज/(दानि) (अन्यादात्मक और/मा अतिविधिद्य मार्च के बाद) | 182.37 | 138.77 | 723.03 | 365.10 | 797.21 |
| 4 | कर परवात अयथि के तिए नियत तार/(द्यापि) (अपयादान्त्रक और/या अतिथितिदः सर्चों के बाद) | 104.06 | 153.93 | 438.13 | 300.98 | 812.41 |
| 5 | अपने के तिए कृत मानक आप (अपने के तिए ताब/(इ.मि.) (कर पत्कात) और अन्य मानक आप (कर पत्कात जानित) | 104.06 | 153.93 | 438.13 | 300.98 | 812.41 |
| I٩ | प्रदत्त इक्किटी गोपर नंजी | 1.274.58 | 1,274.58 | 1,274.58 | 1,273.05 | 1,273,05 |
| I 7 | भारभित (निक्रते वर्ष के तंजानरीभित तुराननत्र में दर्शाये गये पुनर्मृत्यांकन भारभित | - | - | _ | - | 4.388.01 |
| | को घोडकर) | | | | | ' |
| | রবিশ্ববি রাদিযদ তাবা | 240.00 | 340.00 | 340.00 | 240.00 | 340.00 |
| | नियर्ग मूरम | 4,485.27 | 6,058.74 | 4,485.27 | 5,350.12 | 5,881.06 |
| 10 | प्रदत्त कर पूंजी / बलाया कर | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.18 |
| | मकामा विमोर्चनीय त्रीकरंस योगर | - | - | | - | - |
| 12 | ऋग इक्किटी अनुसत | 1.33 | 1.22 | 1.33 | 1.31 | 1.25 |
| 13 | प्रति शेयर अर्जन (रु. १० / – प्रत्येष) (अतिविधियः मधे से पूर्व एवं बाद) | | | | | |
| | 1. मूतः | 0.82 | 121 | 3.91 | 236 | 4.80 |
| | 2. ठीवरपूरिक | 0.82 | 1.21 | 3.01 | 236 | 4.80 |
| | पूंजी विभोचन आरक्षित विभेचर विभोचन आरक्षित | - 1 | - | - 1 | - | i - I |
| | | | | | l | 182 |
| | करण सेवा कवरेज अनुपात प्याज सेवा कवरेज अनुपात | 1.07 2.07 | 1.25 2.20 | 1.38 2.68 | 0.99 2.11 | 1.82 |
| 11 | याज सवा कवरज अनुगत | 201 | 220 | 2.88 | 211 | 2.77 |
| 6 | | | | | | |

विनियम, 2016 को विनियम 33 के अंतर्गत नौंग्वे स्टॉक एक्सचेंज के मास पाखिल ति का मुर्ग प्रात्मम नाग्वे स्टॉक एक्सचेंज की वेनसाइट www.bseindia.com और

NDA SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1992C050366 Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019 Phone: 011-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndsindia.com, Website: v

nt of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Fina

| | 10 | r the Qua | arter end | ea Decei | nber 31, | 2023 | | | (Amoun | it Rs. in Lacs) |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| | Standalone | | | | | Consolidated | | | | |
| Particulars | Quarter Ended | | Nine Months Ended | | Year Ended | Quarter Ended | | Nine Months Ended | | Year Ended |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 |
| | Unaudited Audited | | | | Audited | Unaudited | | | | Audited |
| Total Income | 171.41 | 148.69 | 456.56 | 457.25 | 573.23 | 171.64 | 148.89 | 457.21 | 457.84 | 574.01 |
| Net Profit Before Tax | 33.92 | 13.93 | 61.23 | 28.61 | 25.35 | 33.70 | 13.24 | 59.29 | 26.45 | 22.36 |
| Net Profit After Tax | 25.57 | 10.59 | 45.32 | 18.42 | 82.03 | 25.37 | 9.91 | 43.52 | 16.30 | 78.99 |
| Comprehensive income for the period (comprising profit for the period(after tax) and other comprehensive income(after tax)) | -0.73 | -1.51 | -0.44 | -10.96 | -9.58 | -0.73 | -1.51 | -0.44 | -10.96 | -9.58 |
| Total Comprehensive income | 24.84 | 9.08 | 44.88 | 7.46 | 72.45 | 24.64 | 8.40 | 43.08 | 5.34 | 69.41 |
| Paid up Equity Share Capital (FV 10/-) | 594.84 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 594.84 | 509.22 | 509.22 |
| Other Equity | | | | | 391.76 | | | | | 359.30 |
| Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/, each Basic and Diluted) | 0.43 | 0.21 | 0.76 | 0.36 | 1.61 | 0.43 | 0.19 | 0.73 | 0.32 | 1.55 |